



POLICE COMMISSIONERATE



GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 17.07.2021

1-क्राइम ब्रांच नोएडा व थाना सेक्टर 20 पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से दवाइयों (कोविड-19 मे इस्तेमाल होने वाली) की कालाबाजारी करने वाला 10 हजार रूपये का इनामी अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 17.07.2021 को क्राइम ब्रांच नोएडा व थाना सेक्टर 20 पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से दवाइयों (कोविड-19 मे इस्तेमाल होने वाली) की कालाबाजारी करने वाला 10 हजार रूपये का इनामी अभियुक्त आकाशदीप पुत्र इन्द्रजीत निवासी ए-11 सेक्टर 27 नोएडा को लेबर चौक हरोला से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना सेक्टर 20 नोएडा पर मु0अ0स0 393/21 धारा 420 भादवि,18ए/24/10/96 औषधि प्रसाधन अधिनियम व 3 महामारी अधिनियम पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त के 02 साथी रवि कुमार पुत्र शंभू ठाकुर निवासी जी-9/71 रतिया मार्ग संगम विहार दिल्ली व मौहम्मद जुनैद पुत्र मौहम्मद रईस निवासी एल-1-14/742 संगम विहार दिल्ली को गिरफ्तार कर पूर्व में जेल भेजा जा चुका है।

अभियुक्त का विवरण:

अभियुक्त आकाशदीप पुत्र इन्द्रजीत निवासी ए- 11 सेक्टर 27 नोएडा गौतमबुद्धनगर

अभियोग का विवरण:

मु0अ0स0 393/21 धारा 420 भादवि, 18ए/24/10/96 औषधि प्रसा0 अधिनियम व 3 महामारी अधिनियम

बरामदगी का विवरण:

Actemra Injection 400mg@20ml



2- थाना सेक्टर 20 पुलिस द्वारा, नाबालिग लडकी का अपहरण करने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 27.06.2021 को थाना सेक्टर 20 पुलिस द्वारा मु0अ0स0 806/21 धारा 363 भादवि0 में वांछित चल रहे अभियुक्त सचिन कुमार पुत्र पप्पू सिंह निवासी ग्राम गारव गड़ी थाना सासनी जिला हाथरस को सेक्टर 7 नोएडा सब्जी मण्डी गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त वादी सचिन कुमार की नाबालिग पुत्री को घर से बहला फुसलाकर अपहरण कर ले गया था।

अभियुक्त का विवरण:

सचिन कुमार पुत्र पप्पू सिंह निवासी ग्राम गारव गड़ी थाना सासनी जिला हाथरस

अभियोग का विवरण

मु0अ0स0 806/21 धारा 363 भादवि0 थाना सेक्टर 20 नोएडा गौतमबुद्धनगर



3- थाना सेक्टर-20 नोएडा पुलिस द्वारा 01 वाहन चोर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से एक स्विफ्ट कार बरामद।

दिनांक 17.07.2021 को थाना सेक्टर 20 नोएडा पुलिस द्वारा वाहन चोर अभियुक्त नासिर पुत्र ताहिर निवासी गांव चावली थाना कोतवाली देहात जिला बुलन्दशहर को चौकी झुण्डपुरा क्षेत्र बांस बल्ली तिराहा सेक्टर 08 नोएडा से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से चोरी की एक कार मारुति स्विफ्ट डिजायर रंग सफेद नंबर एचआर27 जी 1191 (सही नम्बर डीएल 8 सीएच 1818) बरामद की गयी है।

अभियुक्त का विवरण:

अभियुक्त नासिर पुत्र ताहिर निवासी गांव चावली थाना कोतवाली देहात जिला बुलन्दशहर

पंजीकृत अभियोग का विवरण:

मु0अ0स0 872/21 धारा 411/414/482 भादवि थाना सेक्टर 20 नोएडा गौतमबुद्धनगर

बरामदगी का विवरण :

मारुति कार स्विफ्ट डिजायर रंग सफेद नंबर एचआर27 जी 1191 (सही नम्बर डीएल 8 सीएच 1818)



4- थाना दादरी पुलिस द्वारा 03 वाहन चोर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 02 मोटरसाइकिल व 03 अवैध चाकू बरामद।

दिनांक 17.07.2021 को थाना दादरी पुलिस द्वारा 03 वाहन चोर अभियुक्त 1. मौहम्मद तारिक पुत्र हैय्याद रांगड निवासी रसूलपुर धभेडी थाना बुढाना जिला मु0नगर 2. लईक पुत्र फारूख रांगड निवासी लाडला बास कस्बा व थाना सिकन्द्राबाद जनपद बु0शहर 3. मोनू उर्फ अनिल यादव पुत्र लख्मीचन्द निवासी ग्राम गाजीपुर थाना सि0बाद बु0शहर को कटहैरा मोड रेलवे रोड दादरी से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की 02 मो0सा0 (1. हीरो होण्डा स्पलैण्डर यूपी 16 बीक्यू 9250 एवं मो0सा0 हीरो होण्डा हन्क एचआर 81 7124)व 03 अवैध चाकू बरामद किये गये है।

अभियुक्तों का विवरण:

- 1.मौहम्मद तारिक पुत्र हैय्याद रांगड नि0 रसूलपुर धभेडी थाना बुढाना जिला मु0नगर
- 2.लईक पुत्र फारूख रांगड नि0 लाडलाबास कस्बा व थाना सिकन्द्राबाद जनपद बु0शहर
- 3.मोनू उर्फ अनिल यादव पुत्र लख्मीचन्द नि0 ग्राम गाजीपुर थाना सि0बाद बु0शहर

पंजीकृत अभियोग व आपराधिक इतिहास का विवरण:

- 1.मौहम्मद तारिक पुत्र हैय्याद

1. मु0अ0सं0 727/2021 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना दादरी गौतमबुद्धनगर

2. मु0अ0सं0 730/2021 धारा 414 भादवि थाना दादरी गौतमबुद्धनगर

2. लईक पुत्र फारूख रांगड

1. मु0अ0सं0 728/2021 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना दादरी गौतमबुद्धनगर

2. मु0अ0सं0 730/2021 धारा 414 भादवि थाना दादरी गौतमबुद्धनगर

3. मोनू उर्फ अनिल यादव पुत्र लख्मीचन्द

1. मु0अ0सं0 729/2021 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना दादरी गौतमबुद्धनगर

2. मु0अ0सं0 730/2021 धारा 414 भादवि थाना दादरी गौतमबुद्धनगर

बरामदगी का विवरण:

1. मो0सा0 हीरो होण्डा स्पलैण्डर यूपी 16 बीक्यू 9250

2. मो0सा0 हीरो होण्डा हन्क एचआर 81 7124

3. 03 अवैध चाकू



#पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर में सड़क दुर्घटनाओं में नकली व निम्नस्तर की गुणवत्ता वाले हेलमेट का प्रयोग करने पर होने वाले हादसों को देखते हुये पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगरके निर्देश पर पुलिस उपायुक्त यातायात कार्यालय सेक्टर 14 ए में हेलमेट इंडिया कोएलिशन के सदस्यों द्वारा 7 एक्स वेलफेयर टीम व ट्रेक्स संस्था

के सहयोग से नागरिकों को जागरूक करते हुये आईएसआई मार्का हेलमेट किये गये वितरित।

दिनांक 17.07.2021 को पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर के निर्देशानुसार अपर पुलिस आयुक्त मुख्यालय के नेतृत्व में सेक्टर 14 ए स्थित पुलिस उपायुक्त यातायात कार्यालय में डीसीपी ट्रेफिक द्वारा हेलमेट इंडिया कोएलिशन के सदस्यों द्वारा 7 एक्स वेलफेयर टीम व ट्रेक्स संस्था के सहयोग से नकली व घटिया क्वालिटी के हेलमेट न प्रयोग करने के उद्देश्य से जागरूकता अभियान चलाया गया जिसमें नागरिकों को नकली हेलमेट पहनने से होने वाले भयंकर नुकसान के बारे में समझाया गया, डीसीपी ट्रेफिक के सामने संस्था के सदस्यों द्वारा नकली हेलमेट को तोड़कर बताया गया कि आमतौर पर कुछ व्यक्ति चालान से बचने के लिये सस्ते हेलमेट खरीद लेते हैं जिससे दुर्घटना होने पर उनकी जान को खतरा हो सकता है साथ ही डीसीपी ट्रेफिक व संस्था के सदस्यों द्वारा आमजन को आईएसआई मार्का हेलमेट पहनने के लिये जागरूक किया गया तथा संस्था द्वारा आमजन को आईएसआई मार्का हेलमेट वितरित किये गये पुलिस उपायुक्त यातायात द्वारा नागरिकों से अपील की गई कि चालान से बचने के लिये नहीं, अपनी सुरक्षा के लिए आई एस आई मार्का हेलमेट का ही प्रयोग करें।



कमिश्नर गौतमबुद्धनगर पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वाले लगभग 434 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी।

पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर के निर्देशानुसार अपर पुलिस आयुक्त मुख्यालय के नेतृत्व में आगामी पर्व के अवसर पर जनपद के सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस द्वारा सार्वजनिक व भीडभाड वाले स्थानों पर असामाजिक तत्वों पर सतर्कता पूर्वक ध्यान रख कर चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने व हुडदंग करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध समय समय पर अभियान चलाकर कठोर कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 17.07.2021 को सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वाले लगभग 434 व्यक्तियों के विरूद्ध धारा 290 भादवि के अंतर्गत कार्यवाही की गयी।

भविष्य मे भी पुलिस द्वारा इस प्रकार की कार्यवाही लगातार जारी रहेगी।